

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 643]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1843.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, राउ, जिला इन्दौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद् राउ, जिला इन्दौर.	अध्यक्ष	-	शिवनारायण डिंगू	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	बब्बू चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	कविता प्रदीप मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	राधाबाई रामसिंह	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	रुबी चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	राजकुमार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः पूजा सुनिल सोमात्रे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात विजय पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ अनिता दिनेश पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ भरत पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस शिवकान्ता ओम मकवाना	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह अनिल जोशी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगर परिषद् राज, जिला इन्दौर.	पार्षद	12	बारह	राजेश मण्डले	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	आशिष डागर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	राजश्री पूनम कैथवास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	हेमंत सोलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1844.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, हातोद, जिला इन्दौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगर परिषद् हातोद, जिला इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	-	श्रीमति सुशीला योगेश परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	शान्तीबाई पति मोतीलाल जाटवा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती ज्योति हितेश जाट	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
4		पार्षद	3	तीन	डाला- लक्ष्मण	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
5		पार्षद	4	चार	भूरसिंह मकवाना	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
6		पार्षद	5	पांच	देवेन्द्र रमेशचन्द्र छाडिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
7		पार्षद	6	छः	माया श्रवण	भारतीय जनता पार्टी	
8		पार्षद	7	सात	रतनलाल	भारतीय जनता पार्टी	
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति मधुतेज प्रकाश राठोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
10		पार्षद	9	नौ	गोरख नाथ पिता गोपी बाबा	भारतीय जनता पार्टी	
11		पार्षद	10	दस	श्रीमति सुनीता जगदीशचन्द्र सौलंकी	भारतीय जनता पार्टी	
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुकेश कैलाशचन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
13		पार्षद	12	बारह	नरोत्तम चौधरी	भारतीय जनता पार्टी	
14		पार्षद	13	तेरह	शिवनारायण चौधरी	भारतीय जनता पार्टी	
15		पार्षद	14	चौदह	रंजन चौधरी	भारतीय जनता पार्टी	
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती किरण गोपाल राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1845.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् सावेर, जिला इंदौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद् सावेर, जिला इंदौर.	अध्यक्ष	-	-	कांता दिलीप चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	सुगन रायसिंह डाबी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	जीतूराज राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	जितेन्द्र हारोड़	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	मायाबाई पति जगदीश यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	जाहिद खान ताज मोहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सन्तोष भगवान गोड़	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	शबनम बी पती इरफान शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	मनोज सिसौदिया S/O जगदीश सिसौदिया	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	हेमन्तसिंह चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	रजनी बबलू गौड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	राम कन्या बाई वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	प्रियंका कमलकिशोर यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	प्रेमलता राजेश मण्डलिया	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	पुरषोतम ओस्तवाल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सोहन सालिग्राम चौहान	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1846.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् गौतमपुरा जिला इंदौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद् गौतमपुरा, जिला इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	चेतन्य भावसार	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद् गौतमपुरा,	पार्षद	1	एक	श्रीमती आशा पति महेश प्रजापत	भारतीय जनता पार्टी
3	जिला इन्दौर.	पार्षद	2	दो	प्रवीण पॉंचाल	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रमेश पटेल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अभयसिंह (अब्बू ठाकुर)	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अलका विनोद गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	ईश्वरलाल बाबूलाल गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	जमना अजय भावसार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	हमीदा बी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	गफ्फार खान जलील मामू	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	राधा कृष्णकांत (मुन्नाभाई)	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	देवेन्द्र वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	हिन्दूसिंह	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	कु. सोना कालूराम पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्यामलाल औसारी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पवित्रा पति धारासिंह	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1847.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् मानपुर, जिला इन्दौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् मानपुर, जिला इंदौर.	अध्यक्ष	-	-	रवि यादव	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अनिता विनोद कुमरावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	श्रीमति निर्मला पति कान्तिराल	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रवि मिश्रीलाल श्रीवास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	केशरसिंह डावर	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती कमलाबाई	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	प्रकाश चौहान	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती सोनूबाई	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	बिना अनूप सिंह जाट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती शारदाबाई	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नगर परिषद् मानपुर, जिला इंदौर.	पार्षद	10	दस	श्रीमती रेखा चौहान	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रोहित मंडलाई	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	कुलदीप जाट (कुक्का)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	पुरुषोत्तम श्रोत्रिय (नन्नु महाराज)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	पवन पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	संतोषबाई मूलचन्द जाट	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1848.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् देपालपुर, जिला इंदौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् देपालपुर, जिला इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	चन्द्रजीत यादव (पप्पू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	मोहरसिंह रायसिंह	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	मीनाक्षी रवि चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	करामत चांद खां	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	अनिल बद्रीलाल धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती पुष्पा विमल यादव	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	पार्वती रामेश्वर मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	सुमित्रा रामेशचन्द्र यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	जालमसिंह पिता रामसिंह (नानु सिंगार)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अन्जना दिनदयाल चौबे	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	प्रहलाद सौलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	महेश पुरी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	संध्या नंदकिशोर यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	करामत हुसैन खां	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मजीद खान	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुमीत्रा बाई प्रहलाद सींह	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1849.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् बेटमा, जिला इंदौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् बेटमा, जिला इंदौर.	अध्यक्ष	-	-	धर्मवीर सिंह (बब्बी दरबार)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रामकन्या रामचन्द्र चौहान	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	तेजराम कनिराम डावर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	चन्द्रशेखर मकवाना	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	बबीता राजेश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	जगदीश टानिक	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	लाला मरोठिया (मोहनलाल)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	रजनी	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	पिंकी बंटी कुमरावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	नीतू मुकेश	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	कविता मनोज खण्डेलवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	अंकित खत्री	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	मंजू दिलीप	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	विकास खत्री (विक्की)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	गोविन्द मण्डलोई	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	शिवबाथम शिव पहलवान	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1850.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् महूगांव, जिला इंदौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् महूगांव, जिला इंदौर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रेखा रामकिशोर शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद्, महूगांव, जिला इंदौर.	पार्षद	1	एक	मनोज विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमति कृष्णा दीपक रावत	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	आशिष शास्त्री (पंडित)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	गोविन्द सिंह शेखावत	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति विनिता भलावी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति सीमा वासुदेव पुजारी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	नन्दकिशोर प्रजापति	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	शोभा राठौर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	आनन्द वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	महेश पाल	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	माणक पंवार	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति सरोज परिहार	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	चन्दा बाई कोटवार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	विजय कविश्वर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति दुर्गा मदनलाल सुर्यवंशी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.